


राजपत्र सं० डी०(डी०)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 581] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1978/पौष 9, 1900
No. 581] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1978/PAUSA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मन्त्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

का. आ. 756(अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास

विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 98 (अ) ऑ. वि. वि. अ./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची 1 में, क्रम सं. 481 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 12(60)/एल. पी./78]

जी. वी. रामाकृष्णा, अपर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1978

S.O. 750(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29-B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S. O. 98(E)/IDRA/29B/73/1 dated the 16th February, 1973 namely —

In the said notification, in Schedule I, Serial No. 481 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 12(60)/LP/78]

G. V. RAMAKRISHNA, Addl. Secy.